



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9—नवम्बर 15, 2013 (कार्तिक 18, 1935)  
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9—NOVEMBER 15, 2013 (KARTIKA 18, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	663	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	973	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1189	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 905
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 3879
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1131
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	663	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	973	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1189	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	905
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	3879
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	1131
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अक्टूबर 2013

संकल्प

सं. 1/7/2012-कपास--भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2013 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा गठित कपास सलाहकार बोर्ड परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से शामिल करने का निर्णय लेते हैं:--

(i) श्री चेजरला नारायण रेड्डी,  
पुत्र श्री चेजरला जलेय्या,  
डी.नं. 11-6-12, रूपकुलाबरी स्ट्रीट,  
बापटला, जिला गुंटूर,  
आंध्र प्रदेश

(ii) श्री कामीनेनी भवानी शंकर,  
पुत्र श्री के. सुरैय्या,  
डोर नं. 26-14-15, नागरामपलेम,  
रघुराम नगर,  
गुंटूर-522006,  
आंध्र प्रदेश

2. दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 का संकल्प सं. 1/7/2012-कपास उपर्युक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य दिनांक 09 जनवरी, 2013 की मूल अधिसूचना संख्या 1/7/2012-कपास में दर्शाई गई बोर्ड की अवधि की समाप्ति तक सेवा में रहेंगे।

4. आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित को प्रेषित की जाए।

5. यह भी आदेश किया जाता है संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. के. श्रीवास्तव  
अवर सचिव

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 17 अक्टूबर 2013

संकल्प

सं. के-12012/7/4/2013/योजना--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के संकल्प संख्या के-12012/5/4/2011-यो.

1—311 GI/2013

एवं अनु./एआईएचबी के माध्यम से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया था। भारत सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में निम्नलिखितानुसार नये गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के संकल्प के अनुसार गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी पदाधिकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत् रहेंगे।

1. श्री अनुज भारद्वाज  
ए-53/डी, पंचशील विहार,  
मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
2. श्री भावार्जु सत्यनारायणा  
वसंतावाड़ा (वी), पेदापादु मंडल,  
पश्चिमी गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश)
3. श्री भरतभाई रेशमवाला  
78, आदर्श सोसाइटी,  
अथवा लाईन्स, सूरत-395001
4. श्री अशोकभाई देवराजभाई जैन  
301, जीवनदीप बिल्डिंग,  
रिंग रोड, सूरत

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में बोर्ड की मौजूदा क्षमता 95 सदस्य होगी जिसमें अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 27 सरकारी सदस्य और 65 गैर-सरकारी सदस्य हैं।

तथापि, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 के संकल्प में अभिलिखित सभी अन्य निबन्धन और शर्तें यथावत् और अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. एस. गुप्ता  
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

सं. एफ-10-3/2013-यू.3(ए)--जबकि केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के

अधीन शक्ति प्राप्त है कि वह यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करे।

2. और जबकि, यूजीसी की सलाह पर, इस मंत्रालय की दिनांक 10 मई, 1989 की अधिसूचना सं एफ. 9-18/85-यू.3 के द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जामिया हमदर्द, नई दिल्ली को एक 'सम-विश्वविद्यालय संस्था' के रूप में घोषित किया गया था।

3. और आगे जबकि, इस सम-विश्वविद्यालय संस्था ने "जामिया हमदर्द, नई दिल्ली" की परिधि के अंतर्गत दीनूल इस्लाम सभा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, दीनूल इस्लाम सभा बिल्डिंग, पीओ-कन्नूर सिटी, केरल में एक ऑफ-कैम्पस केन्द्र की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु वर्ष 2013 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

4. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के अपने पत्र संख्या एफ-19-2/2013 (सीपीपी-1/डीयू) द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश की है कि जामिया हमदर्द, नई दिल्ली को यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 के अधीन यथा निर्धारित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत छः वर्षों के लिए द्विवार्षिक और बाद में पांच

वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यक्षीन केरल में एक ऑफ-कैम्पस केन्द्र आरंभ करने की अनुमति दी जाए।

5. अब इसलिए, केन्द्रीय सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि जामिया हमदर्द, कन्नूर, केरल, शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संचालन के लिए पूर्वोक्त अधिनियम और इसके साथ संबद्ध शर्तों के उद्देश्यार्थ यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 के अधीन यथा निर्धारित सामान्य निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत छः वर्षों के लिए द्विवार्षिक और बाद में पाँच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यक्षीन पूर्वोक्त जामिया हमदर्द, सम-विश्वविद्यालय संस्था, नई दिल्ली की परिधि के अधीन एक ऑफ-कैम्पस केन्द्र के रूप में एक अनुषंगी शिक्षण एकक होगा।

6. ऊपर पैरा 5 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम सं. 3 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन भी है।

आर. पी. सिसोदिया  
संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 21st October, 2013

#### RESOLUTION

No. 1/7/2012-Cotton—The Competent Authority in the Government of India hereby decides to include the following as member of the Consultative Committee of the Cotton Advisory Board, constituted vide Resolution of even number dated 09th January, 2013 with immediate effect :—

- (i) Shri Chejerla Narayana Reddy,  
S/o Shri Chejerla Jalaiah,  
D. No. 11-6-12, Rupakulavari Street,  
Bapatla, Guntur Distt.,  
Andhra Pradesh.
- (ii) Shri Kamineni Bhavani Sankar,  
S/o Shri K. Suraiah,  
Door No. 26-14-15, Nagarampalem,  
Raghuram Nagar,  
Guntur - 522 006,  
Andhra Pradesh.

2. The Resolution No. 1/7/2012-Cotton dated 1st October, 2013 stands modified to the extent stated above.

3. The members of the reconstituted Board will serve till the expiry of the term of Board as indicated in the original notification No. 1/7/2012-Cotton dated 9th January, 2013.

4. Ordered that the copy of this Resolution be communicated to the concerned.

5. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R.K. SRIVASTAVA  
Under Secy.

#### OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 17th October, 2013

#### RESOLUTION

No. K-12012/7/4/2013/Planning—The All India Handicrafts Board was re-constituted vide Resolution No. K-12012/5/4/2011-P&R/AIHB dated 08th December, 2011, for tenure of two years. The Government of India has decided to induct the following as new Non Official Members of All India Handicrafts Board, while retaining all Officials and Non Official Members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide Resolution dated 08th December, 2011 :—

1. Shri Anuj Bhardwaj  
A-53/D, Panchseel Vihar,  
Malviya Nagar,  
New Delhi-110017
2. Shri Bhavarju Satyanarayana  
Vasanthawada(V)  
Pedapadu Mandal  
West Godavari Distt. (Andhra Pradesh)
3. Shri Bharatbhai Reshamwala  
78, Adarsh Society,  
Athwa Lines, Surat-395001
4. Shri Ashokbhai Devrajibhai Jain  
301, Jeevandeep Building,  
Ring Road, Surat.

The present strength of the Board shall be 95 Members comprising of Chairman, Co-Chairperson, Vice-Chairperson, 27 official Members, including Member Secretary and 65 Non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08th December 2011 will, however, remain same and unchanged.

#### ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

S.S. GUPTA  
Development Commissioner (Handicrafts)

---

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

#### (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 18th October 2013

No.F.10-3/2013-U.3(A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, on the advice of the UGC, Jamia Hamdard, New Delhi was declared as an 'Institution Deemed-to-be-University', for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's Notification No.F.9-18/85-U.3 dated 10th May, 1989.

3. And further whereas, the Institution "Deemed-to-be-University" has submitted a proposal in the year 2013 seeking permission for establishment of an off-campus centre at Deenul Islam Sabha Educational Complex, Deenul Islam Sabha

Building, PO Kannur City, Kerala under the ambit of "Jamia Hamdard, New Delhi".

4. And whereas, the UGC vide its communication bearing F.No.19-2/2013(CPP-I/DU) dated 4th October, 2013 has recommended to the Ministry of Human Resource Development to allow Jamia Hamdard, New Delhi to start an off-campus centre at Kerala subject to biennial review for six years and subsequently after five years, subject to usual terms and conditions as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby declare that Jamia Hamdard, Kannur, Kerala shall be a constituent teaching unit under the ambit of Jamia Hamdard, Institution Deemed-to-be-University, New Delhi, as an off-campus centre, for the purposes of the aforesaid Act for conduct of academic course/programmes and the conditions attached thereto, subject to biennial review for six years and subsequently after five years, subject to usual terms and conditions as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010.

6. The declaration as made in Para 5 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.3 of the endorsement to this notification.

R. P. SISODIA  
Jt. Secy.